

English	Hindi
<b>Gatherings at home and large family events</b>	<b>घर में और बड़े पारिवारिक आयोजनों में लोगों का इकट्ठा होना</b>
There are no limits on visits to your home, however group sizes should not exceed 100 people.	मुलाकात के लिए आपके घर पर आने वाले लोगों की संख्या पर कोई सीमाएँ लागू नहीं हैं, परंतु लोगों के समूहों का आकार 100 से अधिक नहीं होना चाहिए।
You still need to maintain physical distancing of 1.5 metres and practise good hygiene.	आपको अभी भी 1.5 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखने और अच्छी स्वच्छता-प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता है।
Do not visit someone else's house if you or they are feeling unwell.	यदि आप किसी के घर पर मिलने के लिए जाना चाहते/चाहती हैं और यदि आपको या उन्हें अस्वस्थ महसूस हो रहा है, तो मुलाकात करने न जाएँ।
While there are no longer restrictions for household visits, we must all be sensible when having people to our homes and put in place control measures.	घर पर मिलने के लिए आने-जाने पर अब कोई प्रतिबंध नहीं हैं, परंतु जब हमारे घरों में लोग आते हैं तो हम सभी को समझदारी से काम लेना चाहिए और नियंत्रण उपायों की व्यवस्था करनी चाहिए।
This includes knowing who is there and at what times, downloading the COVIDSafe app, joining Flu Tracker and participating in important Your Say Community Panel engagements and health surveys that will help the ACT respond as best as it can.	इसमें यह जानकारी रखना कि कौन उपस्थित है और वह किस समय उपस्थित है, COVIDSafe ऐप डाउनलोड करना, फ्लू ट्रैकर की सदस्यता लेना और ACT को यथासंभव अच्छे तरीके से प्रतिक्रिया करने में सहायता देने के लिए महत्वपूर्ण Your Say Community Panel संलग्नताओं एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में हिस्सा लेना शामिल है।